

**LMDQ/D-23**

**10850**

कबीरदास

Paper–MAH-305

Opt. (I)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

**नोट :** सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. दिए गए पद्यांशों में से किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए :

(क) कबीरा प्याला प्रेमका, अंतर दिया लगाय।

रोम रोमसे रमि रह्या, और अमल क्या खाए॥

कबीरा हम गुरु-रस पिया, बाकी रही न छाक।

पाका कलस कुम्हार का, बहुरि न चढ़सी चाक॥

(ख) इस तनका दीवा करौ, बाती मेलूँ जीव।

लोही सिचौ तेल ज्यूँ, कब मुख देखौ॥

कै बिरहिनकूँ मीच दे, कै आपा दिखलाइ।

आठ पहरका दाझणा, मोपै सहा न जाइ॥

(ग) परबति परबति मैं फिरता, नैन गँवाए रोई।

सो बूटी पाऊँ नहीं, जातै जीवन होई॥

नैन हमारे जलि गए, छिन छिन लोड़े तुझ्ज।

नां तू मिलै न मैं सुखी, ऐसी बदन मुज्झ॥

सुखिया सब संसार है, खाये अरु सौवे।

दुखिया दास कबीर है, जागै अरु रोवै॥

(घ) मोरि लगी गये बान सुरंगी हो।

धन सत गुरु उपदेश दियो है, होई गयो चित्त भिरंगी हो।

ध्यान पुरुषकी बनी है तिरिया, घायल पाँचो सँगी हो।

घायल की गति घायल जाने, की जानै जात पतंगी हो।

का है कबीर सुनों भाई साधो, निसि दिन प्रेम उमंगी हो।

(8×2=16)

2. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं **तीन** के उत्तर दीजिए :

(क) संतकाव्य की वैचारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए।

अथवा

संतकाव्य की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए।

(ख) कबीर साहित्य में अभिव्यक्त युग-चेतना की समीक्षा कीजिए।

अथवा

‘कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं।’ स्पष्ट कीजिए।

(ग) संत कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए।

अथवा

अस्मितामूलक विमर्शों की दृष्टि से कबीर साहित्य का मूल्यांकन कीजिए।

(12×3=36)

3. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए। (लगभग 200 शब्दों में) :

(क) गुरुनानक की भाषा शैली।

(ख) संत नामदेव की सामाजिक चेतना।

(ग) संत रैदास के काव्य में मानवतावाद।

(घ) मलूकदास का साहित्यिक परिचय।

(ङ) सहजोबाई का जीवन परिचय।

(च) सुन्दरदास का रचना संसार।

(छ) दादूयुगीन परिस्थितियाँ।

(5×4=20)

4. सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(क) कबीर का पालन-पोषण किसने किया?

(ख) कबीर ने दीक्षा किससे ली थी?

(ग) बीजक के कितने भाग हैं?

(घ) दिल्ली के किस शासक ने कबीर को मरवाने की कोशिश की?

(ङ) संत रविदास का भव्य मन्दिर व मठ कहाँ पर है?

(च) गुरुनानक देव जी ने कौन-सा नगर बसाया था?

(छ) 'अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम' उक्ति किसकी है?

(ज) सहजोबाई किसकी शिष्या थीं?

(1×8=8)